



# MOREPEN



**Date: 13/05/2025**

To,

**National Stock Exchange of India Ltd.**  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai- 400 051  
**Symbol: MOREPENLAB**

**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai- 400 001  
**Scrip Code: 500288**

**Subject: Newspaper Advertisements - Audited standalone and consolidated financial results of the company for the quarter and financial year ended 31<sup>st</sup> March 2025, approved by the Board of Directors on 12<sup>th</sup> May 2025**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the aforesaid financial results are published in the following newspapers on 13<sup>th</sup> May 2025:

- i. Financial Express (English)
- ii. Jansatta (Hindi)

The copy of newspaper advertisements are attached herewith and also being made available on the website of the company at [www.morepen.com](http://www.morepen.com)

Kindly acknowledge the receipt and take it on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Morepen Laboratories Limited**

**Vipul Kumar Srivastava**  
**Company Secretary**  
**F-12148**

**Encl.: a/a.**

**Morepen Laboratories Limited**

CIN NO. L24231 HP1984PLC006028

**Corp. Off.:** 2nd Floor, Tower C, DLF Cyber Park, Udyog Vihar-III, Sector-20, Gurugram, Haryana-122016, INDIA  
TEL.: +91 124 4892000, E-mail: [corporate@morepen.com](mailto:corporate@morepen.com), Website: [www.morepen.com](http://www.morepen.com)

**Regd. Off.:** Morepen Village, Malkumajra, Nalagarh Road, Baddi, Distt. Solan (H.P.) -173205, INDIA  
Tel.: +91 1795 266401-03, 244590, Fax: +91 1795 244591, E-mail: [plants@morepen.com](mailto:plants@morepen.com)



# FOOD STOCK POOL AT SATISFACTORY LEVELS Weather not to affect wheat output: Govt

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, May 12

INDIA'S WHEAT PRODUCTION remains intact at a record 115.3 million tonne (MT) this year, agriculture minister Shivraj Singh Chouhan on Monday said, asserting that the second advance estimate is unlikely to be impacted by any weather incidents.

During a weekly review of agricultural activities, Chouhan highlighted that the wheat crop has nearly completed its maturity stage across all growing states.

"The heatwave or high temperatures will actually expedite the harvesting process. Thus, the second advance estimates are unlikely to be impacted..." an official statement quoted the minister as saying.

The agriculture ministry's second estimate, released in March, projected a record



**SHIVRAJ SINGH CHOUHAN,**  
AGRICULTURE MINISTER

**The heatwave or high temperatures will actually expedite the harvesting process. Thus, the second advance estimates are unlikely to be impacted**

wheat output of 115.3 MT for FY25 — approximately 2% higher than the previous year's 113.3 MT.

Wheat harvesting has been fully completed in Madhya Pradesh, Haryana, Rajasthan, and Gujarat, with partial harvesting remaining in Punjab, Uttar Pradesh, and Bihar as of May 2.

The minister said that food stock in the central pool is at a "satisfactory" level, exceeding

buffer requirements. To date, wheat stock has reached 17.7 MT, higher than the buffer requirement of 7.46 MT. Similarly, rice stock has reached 38.9 MT against the buffer norm of 13.58 MT, the statement added.

The minister also took stock of the progress of sowing of Zaid crops, which are short-duration summer crops that are grown between and during the Rabi and Kharif seasons.

# Onion buying at mkt rates to boost buffer

SANDIP DAS  
New Delhi, May 12

THE GOVERNMENT WILL soon commence procurement of onion from farmers at market prices for creating a buffer for 2025-26 under the price stabilisation fund.

Sources told FE that the target is to buy 0.3 MT of onion for the buffer which would be offloaded in the market, when prices start to spike in festive seasons.

The sources said that currently the storage facilities of shortlisted cooperative societies and farmers producer organisations (FPOs) are being checked by agencies — farmers cooperative Nafed and NCCF — for adherence to various protocols, including provision of CCTV cameras and other facilities for ensuring transparency in the procurement and storage process.

While a major chunk of onion would be purchased in Nashik, Maharashtra, purchase operations would be carried out



in Pune and Ahmednagar districts along with few places in Madhya Pradesh and Gujarat.

Sources said the government agencies had purchased onion at average price of ₹29/kg in FY25 from farmers for the buffer, while in the current fiscal these two agencies are expected to purchase 0.15 MT the key vegetable each at significantly lower market prices because of higher production prospects.

On account of robust crop prospects, at present mandi prices of onion at Lasalgaon, Nashik, Maharashtra are ruling in the range of ₹10-12 kg, which is 36% less than prices prevailing a year ago.

# Sugar exports at 0.42 MT till April

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, May 12

INDIA EXPORTED 0.42 million tonne of sugar till April of the ongoing 2024-25 marketing year with maximum shipments of 92,758 tonne to Somalia, trade body All India Sugar Trade Association (AISTA) said on Monday.

The sugar marketing year runs from October to September. Sugar exports for the 2024-25 marketing year in India were allowed on January 20. The total quantity permitted for export is 1 MT.

According to the AISTA,

mills have exported a total of 424,089 tonne of sugar till April 30 of the current marketing year.

Out of which, white sugar exports were at 0.33 MT, refined sugar 77,603 tonne and raw sugar at 18,514 tonne till April of this year.

About 25,000 tonnes of sugar are under loading, it said.

Of the total exports undertaken so far, maximum shipments have been to Somalia at 92,758 tonne, followed by Afghanistan at 66,927 tonne, Sri Lanka at 60,357 tonne, and Djibouti at 47,100 tonne.

**PDEU**  
PANDIT DEENDAYAL ENERGY UNIVERSITY  
GANDHINAGAR, GUJARAT

UGC RECOGNIZED Formerly Pandit Deendayal Petroleum University (PDPU)

### INVITES APPLICATIONS FOR THE POSITION OF ASSISTANT PROFESSOR (ON TERM)

The NSDC-PDEU Centre of Excellence for Skill Development focuses on skilling, re-skilling, and upskilling students from Tier-1 to Tier-3 institutions in key sectors like Digital Edges, Energy, Health, and Water. It offers flexible learning through online, hybrid, and offline modes to ensure inclusive and accessible education. The Centre supports national missions such as Aatmanirbhar Bharat and Viksit Bharat, while contributing to Sustainable Development Goals. With industry-grade infrastructure, it equips students for global workforce readiness to help drive this transformative skilling mission.

**AREAS OF SPECIALIZATION:**

- Emerging Technologies and Digital
- Innovations: Digital Edge
- Energy & Environment
- Life Sciences & Biotechnology
- Social Sciences, Law & Policy
- Language and Cultural Skills

**APPLY NOW**

Interested candidates can apply on or before 24th May, 2025

For all other details visit University website: <https://pdeu.ac.in/careers>

# MSMEs in tier-II, III cities witness 20% revenue growth

MSMEs IN TIER-II and III cities have recorded an average 20% revenue growth, following integration with the Open Network for Digital Commerce (ONDC), according to a report.

The data from Easy Pay highlighted the growth patterns among businesses that joined the platform through its

onboarding services.

Rajasthan, Gujarat and Maharashtra were the top three states with the maximum number of MSMEs onboarding onto the ONDC platform, Easy Pay said in a report.

In the past year, Easy Pay has witnessed a massive increase in MSMEs onboarding the ONDC

platform and is on track to integrate over 100,000 businesses by FY27, it added.

"Our collaboration with ONDC demonstrates that commerce can be democratic, decentralised, and powered by small-town India," Easy Pay MD Nilay Patel said.

PTI

**VIT**  
Vellore Institute of Technology  
(Chartered to be a University under section 3 of UGC Act, 1956)

## Hearty Congratulations

# Dr. G. Viswanathan

Founder & Chancellor - VIT

on being conferred Honorary Doctor of Pedagogy by the prestigious

**Rochester Institute of Technology (RIT),**  
Rochester, New York State, USA

This momentous occasion of being conferred with your Honorary Doctorate marks a remarkable milestone, underscoring your unwavering dedication, profound impact on countless lives through selfless service and significant effort in nation building.

We salute your transformative work and inspiring journey.

Best Wishes from

**VIT Alumni Association (VITAA)**

**Electricals**

PROFIT BEFORE TAX UP

191%

CONSUMER PRODUCTS REVENUE UP

8.4%

CONSUMER PRODUCTS EBIT UP

138%

**EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH 2025** (Rs. In Lakhs except per share data)

SR. NO.	PARTICULARS	QUARTER ENDED			YEAR ENDED	
		31-Mar-25 (Audited)	31-Dec-24 (Unaudited)	31-Mar-24 (Audited)	31-Mar-25 (Audited)	31-Mar-24 (Audited)
1	Total income from operations	1,28,165	1,30,251	1,21,054	4,88,321	4,72,774
2	Net profit / (loss) before tax for continuing operations	7,125	4,542	2,445	16,968	17,310
3	Net profit / (loss) after tax for continuing operations	5,905	3,336	2,931	13,342	13,588
4	Net profit / (loss) after tax for discontinued operations	-	-	-	-	(480)
5	Net profit / (loss) after tax	5,905	3,336	2,931	13,342	13,108
6	Total Comprehensive Income for the period	5,769	3,336	2,894	13,500	13,117
7	Equity Share Capital					2,304
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				1,69,396	1,41,006
9	Networth				1,57,271	1,45,501
10	Earnings per share (for continuing and discontinued operations, not annualised) (face value of Rs. 2/-)					
	Basic before exceptional items from continuing and discontinued operations	3.19	2.89	2.55	9.64	11.39
	Diluted before exceptional items from continuing and discontinued operations	3.19	2.89	2.54	9.63	11.37
	Basic after exceptional items from continuing and discontinued operations	5.11	2.89	2.55	11.57	11.39
	Diluted after exceptional items from continuing and discontinued operations	5.11	2.89	2.54	11.56	11.37

The above information has been extracted from the detailed consolidated audited financial results for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March 2025, which have been reviewed by the Audit Committee, approved by the Board of Directors and filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said financial results are available on the Stock Exchange websites, [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.bajajelectricals.com](http://www.bajajelectricals.com).

By order of the Board of Directors  
for Bajaj Electricals Limited

**Shekhar Bajaj**  
Chairman

Place: Mumbai  
Date: May 12, 2025

**BUILT TO BE UNSTOPPABLE**

**5 YEARS PRODUCT WARRANTY**

CIN : L31500MH1938PLC009887 | Registered Office: 45/47, Veer Nariman Road, Mumbai -400 001  
Tel. 022-61497000 | Website: <http://www.bajajelectricals.com> | Email: [legal@bajajelectricals.com](mailto:legal@bajajelectricals.com)

• GLOBAL GENERICS • DIAGNOSTICS • FORMULATIONS • SELF HEALTH PRODUCTS

**MOREPEN LABORATORIES LIMITED**  
(CIN: L24231HP1984PLC006028)

Regd. Office : Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, H.P. - 173205  
Tel: +91-1795-266401-03, Fax: +91-1795-244591

Corp. Office : 2<sup>nd</sup> Floor, Tower C, DLF Cyber Park, Udyog Vihar-III, Sector 20, Gurugram, Haryana-122016  
Website: [www.morepen.com](http://www.morepen.com), E-mail: [investors@morepen.com](mailto:investors@morepen.com)

**Extract of Statement of Audited Consolidated Financial Results**  
For the Quarter & Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2025 (₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	46585.33	42307.35	181157.58	169043.25
2	Profit before Tax	2571.47	4220.18	15510.94	13541.57
3	Net Profit after Tax	2031.04	2874.10	11801.54	9662.03
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	1951.20	2624.60	11827.41	9431.81
5	Paid-up Equity Share Capital of Face Value of ₹2/- each	10958.41	10222.71	10958.41	10222.71
6	Other Equity	-	-	104664.66	74499.91
7	Earning Per Share (in ₹)				
	- Basic	0.35	0.54	2.20	1.88
	- Diluted	0.35	0.54	2.20	1.88

**Note:-**

A The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange's websites [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the Company's website [www.morepen.com](http://www.morepen.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.

B Additional Information on Standalone financial results is as follows:- (₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	38193.77	39260.02	155453.53	153759.35
2	Profit for the period before Tax	1730.44	5270.65	13758.56	14897.55
3	Net Profit for the period after Tax	1191.14	3995.97	10157.52	11093.60
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	1111.42	3772.87	10174.75	10891.01

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-  
**(Sushil Suri)**  
Chairman & Managing Director

Place : Gurugram, Haryana  
Date : May 12, 2025

Note - Shareholders are requested to register their Email ID at [investors@morepen.com](mailto:investors@morepen.com)/  
[investor@masserv.com](mailto:investor@masserv.com)/[www.morepen.com](http://www.morepen.com) for quick correspondence.



